



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 20, 2012/पौष 30, 1933

No. 23]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 20, 2012/PAUSA 30, 1933

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2012

सा.का.नि. 38(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (भारत मौसम विज्ञान विभाग) प्रशासनिक सवर्ग समूह 'ख' (अराजपत्रित) और समूह 'ग' भर्ती नियम, 2006 को उन बातों के सिवाय, अधिकृत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारत मौसम विज्ञान विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के कार्यालय में आशुलिपिक समूह 'ख' और समूह 'ग' पदों के प्रशासनिक श्रेणियों की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (भारत मौसम विज्ञान विभाग) समूह 'ख' और समूह 'ग' (अराजपत्रित, अनुसूचीय (आशुलिपिक श्रेणी-I और श्रेणी-II) पद भर्ती नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड ग्रेड वेतन/वेतनमान**.—पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि**.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता**.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जावित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति**.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और आदेश द्वारा सच लोक सेवा आयोग के पगमर्श से किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत इन नियमों के किसी उपबध का शिथिल कर सकती है।

6. **व्यावृत्ति**.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सबध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबध करना अपेक्षित है।

उपाबंध-1

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में आशुलिपिक श्रेणी-I तथा श्रेणी -II के पद के लिए भर्ती नियम
(भारत मौसम विज्ञान विभाग)

"अनुसूची"

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन /वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1) आशुलिपिक श्रेणी-I	10+22=32 *(2011) *(कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसूचित	वेतन बैंड-2 (9,300-34,800 ₹)+ ग्रेड वेतन 4,200 ₹	लागू नहीं होता
सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिचीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति। भर्ती सीधे होगी या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा
प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा।		यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	
(11)	(12)	(13)		
<p>1. प्रोन्नति:</p> <p>ऐसा आशुलिपिक, श्रेणी-II, जिसने श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण: जहां कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक सेवा पूर्ण कर ली है, प्रोन्नति व्यक्तियों पर भी विचार किया जा रहा है, वहां उनके ज्येष्ठ कर्मचारियों पर भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनकी अपेक्षित पात्रता/अर्हता सेवा में कमी ऐसी पात्रता/अर्हता सेवा से आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने अपने कनिष्ठों सहित, जिन्होंने पहले ही ऐसी पात्रता/अर्हता सेवा पूर्ण कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिचीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली है।</p>	<p>प्रोन्नति तथा प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर नियुक्ति के मामलों पर विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति:</p> <p>1 वैज्ञानिक 'जी'-अध्यक्ष</p> <p>2 उप महानिदेशक (प्रशासन तथा भण्डार)- सदस्य</p> <p>3 वैज्ञानिक 'एफ' (महानिदेशक-सदस्य द्वारा नामित किया जाएगा)- सदस्य</p>	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श उस दशा में किया जाएगा जब किसी अधिकारी को आमेलन आधार पर नियुक्त करने पर विचार किया जाता है।		

II प्रतिनियुक्ति/आमेलन

केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी, जो

(क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या

(ii) जिन्होंने वेतन बैंड+ग्रेड वेतन 5200-20200+2400 ₹ अथवा समतुल्य पद पर दस वर्ष की नियमित सेवा की हो; तथा

(ख) आशुलिपि (अंग्रेजी/हिंदी) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति रखते हों।

टिप्पण: पोषक प्रवर्ग के ऐसे अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पक्ति में हैं; प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं हैं। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केन्द्र सरकार के उसी संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पहले अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(2) आशुलिपिक श्रेणी-II	21* (2011) *(कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित/अनुसचिवीय	वेतन-बैंड-1 ₹5200-20200+ ग्रेड वेतन 2400 ₹	लागू नहीं होता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18-27 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष की जा सकेगी) टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अवधारित की जाए।	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समतुल्य (ii) कौशल परीक्षण सन्निधिम श्रुतलेख 80 शब्द प्रति मिनट की दर से 10 मिनट लिप्यंतरण 65 मिनट (अंग्रेजी) 75 मिनट (हिंदी) (हाथ से संचालित टंकण मशीन पर) अथवा 50 मिनट (अंग्रेजी) 65 मिनट (हिंदी) (कम्प्यूटर पर)	लागू नहीं होता	दो वर्ष	कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती टिप्पण: पदधारी कर्मचारी के प्रतिनियुक्ति अथवा लम्बी बीमारी अथवा अध्ययन अवकाश अथवा अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि तक बाहर रहने के परिणामस्वरूप हुई रिक्तियों को केन्द्रीय सरकार के ऐसे कर्मचारियों से भरा जाएगा जो स्तम्भ 8 में सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं रखते हैं तथा नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	पुष्टि के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति 1. उप महानिदेशक, मौसम विज्ञान (प्रशासन तथा भण्डार)-अध्यक्ष 2. वैज्ञानिक 'डी' - सदस्य 3. अन्य विभाग से एक समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. ए-12026/2/2009-ई (3)/आरआर/एसएफएस]

वसुधा गुप्ता, निदेशक (स्या.)

MINISTRY OF EARTH SCIENCES

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th January, 2012

G.S.R. 38(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Science and Technology (India Meteorological Department), Administrative Cadres Group 'B' (Non-Gazetted) and Group 'C' post Recruitment Rules, 2006, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of Recruitment to the Administrative Grades of Stenographer Group 'B' and Group 'C' posts in the office of the India Meteorological Department, Ministry of Earth Sciences, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Earth Sciences (India Meteorological Department) Group 'B' and Group 'C' (Non-Gazetted) Ministerial (Stenographer Grade-I and Grade-II) posts Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2. Number of post, classification and Pay Band and Grade Pay / Pay Scale.—The number of post, its classification and the Pay Band and Grade Pay/Pay Scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualifications: No persons,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Annexure-I**Recruitment Rules for the post of Stenographer Grade-I and Grade-II in Ministry of Earth Sciences (India Meteorological Department)****SCHEDULE**

Name of post	Number of post	Classifications	Pay Band and Grade Pay/Scale	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1) Stenographer Grade-I	10+22=32 *(2011) *(Subject to variation dependent on work load)	General Central Services, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial	PB-2 ₹ 9300-34800+ GP ₹ 4200/-	Not applicable.

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and other educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years	By promotion failing which by deputation / absorption.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstance in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
I. Promotion : Stenographer Grade-II with ten years regular service in the grade. Note: where juniors who have completed their qualifying eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years whichever is less, and have	Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering promotion cases and appointment on deputation/absorption : 1. Scientist 'G' – Chairman 2. Deputy Director General (Administration and Stores), – Member. 3. Scientist 'F' (to be nominated by Director General – Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary when an officer is in the field of consideration for appointment on absorption basis

successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

II. Deputation/Absorption.

Officer under the Central Government –

(a) (i) holding analogous posts on a regular basis; or

(ii) with ten years regular service in posts in the Pay Band + Grade Pay of ₹ 5200-20200 + 2400 or equivalent; and

(b) possessing a speed of 100 w.p.m. in Stenography (English/Hindi).

Note: Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment for deputation. Similarly, deputationists will not be eligible for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre posts held immediately preceding this appointment in the same Organization/department of the Central ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation/absorption shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(2) Stenographer Grade-II	21* (2011) *(Subject to variation dependent on work load)	General Central Services, Group 'C', Non- Gazetted / Ministerial.	PB-1 ₹ 5200- 20200+ GP ₹ 2400/-	Not applicable

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18-27 years (Relaxable for Govt. servants Upto 40 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Govt.). Note: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by	(i) 12 th class pass or equivalent from a recognized Board or University. (ii) Skill Test Norms Dictation: 10 mts @ 80 w.p.m. Transcription: 65 mts (Eng.) 75 mts. (Hindi) (On	Not applicable	Two years	Direct recruitment through Staff Selection Commission. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one

the staff Selection Commission	Manual Typewriter) Or 50 mts. (Eng.) 65 mts. (Hindi) (On Computer			year or more may be filled on deputation from the officials of the central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications Prescribed for direct recruits at Column 8.
--------------------------------	---	--	--	--

(11)	(12)	(13)
Not applicable	<u>Group 'C' Departmental Promotion Committee for confirmation</u> 1 Deputy Director General of Meteorology (Administration and Stores). -- Chairman 2. Scientist 'D' -- Member 3 One Group 'B' Gazetted Officer from another Department. -- Member.	Not applicable

[F No A-12026/2/2009-E(3)/RR/SFS]

VASUDHA GUPTA, Director (Estt)